



आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर और उत्पाद शुल्क:
O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), CENTRAL GST & EXCISE,



द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan,

रेस कोर्स रिंग रोड, / Race Course Ring Road,

राजकोट / Rajkot - 360 001

Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142 Email: cexappealsrajkot@gmail.com

रजिस्टर्ड डाक ए. डी. द्वारा :-

क अपील / फाइल संख्या /

Appeal / File No.

V2/27/BVR/2017

मूल आदेश सं /

O.I.O. No

R-278/Refund/16-17

दिनांक /

Date

30.12.2016

ख अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.):

BHV-EXCUS-000-APP-083-2017-18

आदेश का दिनांक /

Date of Order:

03.01.2018

जारी करने की तारीख /

Date of issue:

09.01.2018

कुमार संतोष, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /

Passed by Shri Kumar Santosh, Commissioner (Appeals), Rajkot

ग

अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त/सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी, राजकोट / जामनगर / गान्धिधाम द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से सूचित /

Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise / Service Tax, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham

घ

अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पता /Name&Address of the Appellants & Respondent :-
M/s Madhav Copper P. Ltd, Plot No. 5/B/B, Survey No. 346-47 Near Kobdi, Ukharla, Bhavnagar - 364 050

इस आदेश(अपील) से व्यभिक्त कोई व्यक्ति विमनसिद्धित तरीके से उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दावा कर सकता है।
Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

(A)

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35B के अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत विमनसिद्धित जगह की जा सकती है।
Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

(i)

वर्गीकरण मुद्दों/संबन्धित सभी मामलों सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर. के. पुरम, नई दिल्ली, को की जाती चाहिए।
The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

(ii)

उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपील के अलावा सेवा कर अपील सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (विस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठ, द्वितीय तल, बहुमाली भवन अलावा इमरुतवाबद-380016 को की जाती चाहिए।
To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at 2nd Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above

(iii)

अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमवली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये धारा EA-3 को धारा प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की राशि, अलावा की राशि और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्ट्रार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित शुल्क का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थान आदेश (स्टै ऑर्डर) के लिए आवंटन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/- where amount of duty demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-

(iv)

अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित धारा S.T.-5 में धार प्रतियों में की जा सकती है एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी है, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (जिसमें से एक प्रति प्रस्तावित होती चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की राशि, अलावा की राशि और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्ट्रार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित शुल्क का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थान आदेश (स्टै ऑर्डर) के लिए आवंटन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in Form S.T.-5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fee of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-

(i) विल अपीलियम, 1994 की धारा 86 की उप-धारा (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाका निवृत्तवाली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित फॉर्म S.T.-7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त अथवा उपयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवाकार, को अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। / The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in Form ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.

(ii) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेस्टैट) के प्रति अपील के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपीलियम 1944 की धारा 35ए के अंतर्गत, जो की विलीय अपीलियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्कसेवा कर मूल के 10 प्रतिशत (10%), जब मूल एवं जुर्माना विवादित है, या जुर्माना, जब केवल जुर्माना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्त कि इस धारा के अंतर्गत जहां कि जाने वाली अपीलित देय राशि दस करोड़ रुपया से अधिक न हो।

- (i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मूल किए गए शुल्क" में निम्न शामिल है
 - (ii) धारा 11 डी के अंतर्गत रकम
 - (iii) सेलैट जमा की गयी राशि
 - (iv) सेलैट जमा निवृत्तवाली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम
- बशर्त यह कि इस धारा के प्रावधान विलीय (सं. 2) अपीलियम 2014 के अंतर्गत से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के द्वारा विवादाधीन रकम अर्जी एवं अपील को लागू नहीं होगी।

For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores.

Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include :

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules

- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

(C) भारत सरकार को पुनरीक्षण आवेदन :
Revision application to Government of India:
इस आदेश की पुनरीक्षण प्राधिकृत निम्नलिखित मामलों में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपीलियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथम परतुक के अंतर्गत अपील अधिकारी, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई, विलीय न्याय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन टॉप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। / A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:

(i) यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में। / In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.

(ii) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल या भी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छूट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। / In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

(iii) यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। / In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

(iv) सुनिश्चित उत्पाद के उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए जो इमुटी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपीलियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मजबूती की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा विलीय अपीलियम (सं. 2), 1998 की धारा 109 के द्वारा निर्यात की गई तारीख अथवा सहायविधि पर या बाद में पारित किए गए हैं। / Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(v) उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां फॉर्म संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 9 के अंतर्गत निर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपीलियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अद्ययगी के साथ-साथ TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। / The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-in-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(vi) पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अद्ययगी की जानी चाहिए। / जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रुपये से ज्यादा हो तो रुपये 1000/- का भुगतान किया जाए। / The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

(D) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपरोक्त इन में किया जाना चाहिए। इस तथ्य के होते हुए भी की निम्न पदी कार्य में बचने के लिए सहायिता अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers various numbers of order-in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, not withstanding the fact that the one appeal to the Appellate Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filed to avoid scripps work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.

प्रांशोधित न्यायालय शुल्क अपीलियम, 1975, के अनुसूची-1 के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का 'मूल शुल्क टिकट' लगा होना चाहिए। / Copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs. 6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended.

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आवे विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबंधित मामलों को शामिल करने वाले नियमों की और भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। / In addition to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Tax (Procedure) Rules, 1982.

को अपील दायित्व करने से संबंधित विषयक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलकर्ता विभागीय वेबसाइट पर जा सकते हैं। / For details regarding filing of appeal to the higher appellate authority, the appellants may visit the website www.cbec.gov.in

के.के.डी.आर.

:: ORDER IN APPEAL ::

M/s. Madhav Copper Pvt. Ltd., Plot No. 5/B/B, Survey No. 346-47, Near Kobadi, Ukharia, Bhavnagar (*hereinafter referred to as 'the appellant'*) have filed the appeal against the Order-in-Original No. R-278/Refund/2016-17 dated 30.12.2016 (*hereinafter referred to as 'the impugned order'*) passed by the Assistant Commissioner, Central Excise City Division, Bhavnagar (*hereinafter referred to as 'the adjudicating authority'*).

2. The brief facts of the case are that the appellant - manufacturer exporter of excisable goods namely 'Submersible Winding Wires' - is availing benefits of CENVAT Credit and had exported 2034.04 Kgs under ARE-1 No. 001/04.08.2015; after completion of export formalities and shipment of the above goods, the appellant filed Rebate claim on 25.10.2016 for Rs. 1,20,006/- as per Section 11-B of the Central Excise Act, 1944 (Act) read with Rule 18 of the Rules and Notification No. 19/2004-CE (NT) dated 06.09.2004 as amended vide Notification No. 18/2016-CE (NT) dated 01.03.2016. The goods were exported on 10.08.2015 whereas rebate claim was filed on 25.10.2016 i.e. after the prescribed time limit of One year. Therefore, Show Cause Notice dated 09.12.2016 was issued to the appellant, which was adjudicated by the lower adjudicating authority vide impugned order wherein he rejected rebate claim on account of time limitation under Section 11B of Central Excise, 1944 (*hereinafter referred as "the Act."*).

3. Being aggrieved with the impugned order, the appellant filed appeal, *interalia*, on the grounds as under :-

- (i) The adjudicating authority has passed the impugned order violating the settled principle of judicial discipline pronounced by CESTAT / High Court.
- (ii) The main condition as per Rule- 18 of the Rules read with and Notification No. 19/2004-CE dated 06.09.2004 i.e. the export of the excisable goods had taken place within six months from the date of removal of the exported goods from the factory of the appellant.
- (iii) There is no time limit prescribed except the time limit for making the export of the goods within 6 months in Notification No. 19/2004-CE dated 06.09.2004, there is no other time limit prescribed as held in 2012 (281) E.L.T. 227 (Mad.), M/s Dorcas Market Makers Pvt. Ltd.

4

- (iv) There is a prescribed policy of the Central Government that whenever any goods and taxable service are exported outside India, refund of tax/ duty paid is to be allowed and exporter's interests to be protected vide Article of 226 of the Constitution of India.
- (v) They relied on the following cases in support of their claim:
- * Dorcas Market Makers P. Ltd. Reported as 2015 (325) ELT 0104 (SC)
 - * Swagat Synthetics reported as 2008 (232) E.L.T. 413 (Guj.)
 - * Raghuvar (India) Ltd. reported as 2000 (118) E.L.T. 311 (SC)
 - * Shasun Pharmaceuticals Ltd. reported as 2013 (291) E.L.T. 189 (Mad)

4. Personal hearing in the matter was attended by Shri N. K. Maru, Consultant, who reiterated the grounds of appeal and submitted that rebate is not covered under Section 11B of the Act; that goods were exported within 6 months of removal under ARE-1 date; that there is no time limit to seek refund at the said notification.

FINDINGS:-

5. I have carefully gone through the facts of the case, the impugned order, the appeal memorandum and submission made during the personal hearing. I find that the issue to be decided in the present appeal is as to whether the rebate claim filed under Notification No. 19/2004-CE(NT) as amended beyond one year from the date of export is to be allowed or not.

6. I find that Section 11B not only covers refund but rebate claims also as clarified vide Explanation(A) in the Act itself. Section 11B is reproduced for ready reference as below :

"Section 11B. Claim for refund of duty and interest, if any, paid on such duty -

(1) Any person claiming refund of any duty of excise and interest, if any, paid on such duty may make an application for refund of such duty and interest, if any, paid on such duty to the Assistant Commissioner of Central Excise or Deputy Commissioner of Central Excise before the expiry of one year from the relevant date.....

.....

.....

Explanation. - For the purposes of this section, -

(A) "refund" includes rebate of duty of excise on excisable goods exported out of India or on excisable materials used in the manufacture of goods which are exported out of India;

(B) "relevant date" means, -

(a) in the case of goods exported out of India where a refund of excise duty paid is available in respect of the goods themselves or, as the case may be, the excisable materials used in the manufacture of such goods, -

Amro

(i) if the goods are exported by sea or air, the date on which the ship or the aircraft in which such goods are loaded, leaves India."

[**Emphasis supplied**]

7. I also find that Notification No. 19/2004-CE (NT) has been amended vide Notification No. 18/2016-CE(NT) dated 01.03.2016 wherein words "before the expiry of the period specified in Section 11B of Central Excise Act, 1944 (1 to 1944)" have been inserted. Hence, the case laws prior to this amendment will not be applicable in this case.

8. The law as it existed in 2016 makes it very clear that Section 11B is applicable to rebate claims also as refund includes rebate of duty of excise on excisable goods exported out of India. The rebate claim is also required to be claimed within one year from the relevant date. In this case rebate has been claimed on 25.10.2016 whereas goods had been exported on 10.08.2015 and hence rebate claim is actually time barred.

9. In view of above, I find that the rejection of the Rebate claim on the ground of time-bar is legal and proper. The appeal is, therefore, rejected.

९.१ अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है.

9.1 The appeal filed by the appellant is disposed off in above terms.

(Handwritten Signature)
31/1/2018
(कुमार संतोष)
आयुक्त (अपील्स)

By Speed Post

To

| | |
|---|--|
| M/s. Madhav Copper Pvt. Ltd. Plot No. 5/B/B, Survey No. 346-47, Nr. Kobadi, Ukharla, Bhavnagar- Talaja Road, Bhavnagar-364 050 | मेसर्स माधव कॉपर प्रा. ली. प्लॉट न. 5/8/8, सर्वे न. 346-47, कोबाडी के पास, ऊखरला, भावनगर- तलाजा रोड, भावनगर- ३६४ ०५०. |
|---|--|

Copy to:-

1. The Chief Commissioner, GST & Central Excise, Ahmedabad Zone, Ahmedabad
2. The Commissioner, GST & Central Excise, Bhavnagar Commissionerate, Bhavnagar.
3. The Assistant Commissioner, GST & Central Excise City Division, Bhavnagar.
4. Guard File.